

**@ Shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 22.04.2021**

**थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता,**

**12 घण्टे के अन्दर थाना पुवायाँ पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार,**

**चोरी गये माल 95 पीस पैन्ट व 23 शर्ट व टी-शर्ट बरामद ।**

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाकर की जी रही लगातार कार्यवाही के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री नवनीत कुमार नायक, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निर्देशन मे श्री के0बी0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व मे थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

थाना पुवायाँ पर दिनांक 21.04.2021 को वादी ब्रजेश कुमार पुत्र अवनीश कुमार निवासी ग्राम पटई थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चोरी सम्बन्ध में मु0अ0सं0 262/2021 धारा 379 भादवि व वादी मो0 परवेज पुत्र मो0 अच्छन निवासी मो0 कसभरा तकिया निगोही रोड कस्बा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा जिन्स पैन्ट एक बोरा में रखे करीब 80 पीस चोरी होने के संबंध मे मु0अ0सं0 263/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया था ।

थाना क्षेत्र पुवायाँ में हुई 02 चोरियों का खुलासा कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ को कडे दिशा निर्देश दिये गये, चोरी के खुलासे में लगायी गयी टीम द्वारा गहनता से छानवीन करते हुये प्रकाश में आये चोरी के अभियुक्त शरीफ उर्फ तारू पुत्र अजीजुल्ला निवासी मौ0 गढ़ी कस्वा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर को उसके घर से आज दिनांक 22.04.21 को 09.00 बजे मय 95 पैन्ट मु0अ0सं0 263/2021 धारा 379/411 भादवि व एक नंग जिसमे 23 शर्ट-टी शर्ट संबंधित मु0अ0सं0 262/2021 धारा 379/411 भादवि के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना पुवायाँ पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### ➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1- शरीफ उर्फ तारू पुत्र अजीजुल्ला निवासी मौ0 गढ़ी कस्वा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

### ➤ **अभियुक्तगण से बरामदमाल**

01- एक नंग प्लास्टिक का बोरा जिसमे 95 पैन्ट

02- एक नंग जूट जिसमे 23 शर्ट- टीशर्ट

### ➤ **अपराधिक इतिहास**

1- मु0अ0सं0 262/2021 धारा 379 भादवि

2- मु0अ0सं0 263 /2021 धारा 379 भादवि

### ➤ **गिरफ्तार करने वाली टीम**

1- उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

2- उ0नि0 श्री राजाराम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

3- का0 794 ब्रजपाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

4- का0 1858 अबरार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

